

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
// पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप //

प्रति,

- ग्राम पंचायत सचिव/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
ग्राम पंचायत .....  
जनपद पंचायत, .....  
जिला .....मध्यप्रदेश।
- आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद, .....  
जिला ..... मध्यप्रदेश।

कल्याणी का  
फोटोग्राफ

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने बावत।

1. कल्याणी की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. कल्याणी का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर  
(यदि हो तो)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. कल्याण का बीपीएल कार्ड नम्बर (यदि हो तो)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. कल्याणी का नाम

.....

5. स्व. पति का नाम .....

6. जाति वर्ग .....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------

7. कल्याणी का जन्म तिथि ...../...../.....आयु.....

8. कल्याणी का मोबाईल नम्बर .....

9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक ..... एवं दिनांक .....

10. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता.....

.....

11. परिवार की वार्षिक आय .....

12. क्या कल्याणी आयकरदाता है ? हां / नहीं

13. क्या कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं

14. क्या कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं

15. क्या कल्याणी को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं

16. कल्याणी का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर

कल्याणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं ..... पति ..... निवासी

..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदिका के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

:: पावती ::

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद  
.....जिला .....म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

श्रीमती..... समग्र आईडी .....

पति..... समग्र आईडी ..... निवासी  
ग्राम/नगर.....

तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/नगर परिषद

जिला .....मध्यप्रदेश

## // अस्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद

.....जिला .....म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....  
 पति..... निवासी ग्राम/नगर .....  
 तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.  
 द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1 मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र  | हां/ नहीं |
| 2 कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र  | हां/ नहीं |
| 4 कल्याणी की 9 अंको की समग्र आईडी  | हां/ नहीं |
| 5 कल्याणी की आयु प्रमाण पत्र   | हां/ नहीं |
| 6 कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो | हां/ नहीं |
| 8 कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र                                     | हां/ नहीं |
| 9 कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र                   | हां/ नहीं |
| 10 कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | हां/ नहीं |
| 12 कल्याणी के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ   | हां/ नहीं |

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/नगर परिषद

द्वारा अधिकृत अधिकारी

## // स्वीकृति आदेश //

कार्यालय ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद  
.....जिला .....म.प्र

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....  
पति..... निवासी ग्राम/नगर .....  
तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.  
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूर्ति होने के कारण पेंशन सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/नगर निगम/  
नगर पालिका/नगर परिषद  
द्वारा अधिकृत अधिकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5(1) के अंतर्गत  
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का .....  
नाम एवं पता .....

1. आवेदक का नाम एवं पता .....

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय .....  
में आवेदन प्राप्त का दिनांक .....

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन .....  
दिया गया है .....

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा .....  
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु .....

आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं .....

4. निश्चित की गई समय-सीमा .....  
की आखिरी तारीख .....

स्थान .....

दिनांक .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट :- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में  
उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप पदाभिहित  
अधिकारी के कार्यालय का नाम .....

माह ..... वर्ष .....

क्रमांक	आवेदिका का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)